

287-

उत्तराखण्ड शासन  
राज्य सम्पत्ति अनुभाग-02,  
स0- /xxxii-2-2016-2(3)/2016, टी0सी0  
देहरादून, दिनांक 22 मार्च, 2016

कार्यालय-आदेश

मा0 शिक्षा मंत्री जी के साथ सम्बद्ध राज्य सम्पत्ति विभाग के स्टाफ कारों में निम्न विवरणानुसार जनपद भ्रमण के दौरान फिलिंग स्टेशनों द्वारा करायी गयी पी0ओ0एल0 आपूर्ति से सम्बन्धित बीजको को निम्न विवरणानुसार मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये, जिसे सचिवालय प्रशासन (लेखा) अनुभाग के कार्यालय आदेश संख्या-222/xxxi(11)/2016, दिनांक 09 मार्च, 2016 के द्वारा कालबाधित मुक्त किया गया है, जिनकी कुल धनराशि ₹ 10,348.00 (दस हजार तीन अड़तालीस मात्र) का भुगतान शासनादेश संख्या-22/xxxi(12)/बजट-2015, दिनांक 07 मई, 2015, आवंटन पत्र संख्या- xxxi(12)/2015, अलोटमेंट आई0डी0-H1505030038, आवंटन पत्र दिनांक 01 मई, 2015 द्वारा वरिष्ठ वित्त अधिकारी उत्तराखण्ड शासन देहरादून के निवर्तन पर रखी गयी धनराशि के सुसंगत मद से आहरित कर निम्न विवरणानुसार सम्बन्धित फर्म को भुगतान किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

क्र.स.	वाहन संख्या/सम्बद्धता	फर्म का नाम	बीजक संख्या/दिनांक	कुल धनराशि
1	यू0के0-07, जी.ए.- 0788 मा0 शिक्षा मंत्री	राधा कृष्णा फिलिंग स्टेशन, टि0 गढ़वाल	3297/3.06.14, 3320/7.08.14	₹ 10,348.00

कुल धनराशि ₹ 10,348.00 (दस हजार तीन अड़तालीस मात्र)

- वरिष्ठ वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन द्वारा उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि को सम्बन्धित फर्मों के नाम से के बैंक ड्राफ्ट/चैक बनाते हुये सम्बन्धित फर्म को उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-03 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2013-मन्त्रिमरिषद-800-अन्य व्यय-03-मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय-15-गाड़ियों का अनुरक्षण प्रेट्रौल आदि के नामे डाला जायेगा।

(धर्मेन्द्र सिंह)  
अपर सचिव।

स0-27 /xxxii-2-2016-2(3)/2016, टी0सी0, तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, सहारनपुर रोड देहरादून।
- केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय/निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड/निदेशक, लेखा एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड डालनवाला, देहरादून।
- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/वरिष्ठ वित्त अधिकारी, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन/उपसचिव, इरला चैक अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित।
- मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग/वित्त अनुभाग-05/सम्बन्धित जिलाधिकारी, फर्म/गार्डफाईल/एन0आई0सी।

आज्ञा से

(एम0एम0सेमवाल)  
संयुक्त सचिव।